

थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

दिनांक -23-09-2019

थाना बन्नादेवी पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत 02 शांतिर अपराधी को चोरी की मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ श्री आकाश कुलहरि महोदय द्वारा जनपद में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु चलाये गये अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी द्वितीय नगर श्री प्रशांत सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बन्नादेवी श्री रवीन्द्र कुमार दुबे द्वारा करायी जा रही चौकियों के दौरान दि० 23.09.19 को उ०नि० श्री अभय प्रताप व उ०नि० श्री हेमन्त कुमार की टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति चोरी की एक मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में रसलगंज पुलिया के सामने खाली पडी जगह में बीच बने खण्डों में खडे है इस सूचना पर विश्वास करके उ०नि० श्री अभय प्रताप सिंह मय हमराह टीम द्वारा रसलगंज पुलिया के सामने खाली पडी जगह में बीच बने खण्डों से दो अभियुक्तों को पकड लिया जिनसे सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा एक अदद मोटर साइकिल CENTURO XT न० DL85BX4644 को चोरी करना स्वीकार किया जिसको इन लोगों द्वारा AMU CITY SCHOOL G.T ROAD से चोरी किया था तथा और सख्ती से पूछताछ पर नगला कलार खैर बाईपास रोड पर घर में घुसकर चोरी की घटना करना भी कबूल किया मौके से अभियुक्तों 1. तौसीफ पुत्र कल्लन खॉं नि० जमालपुर मौलाना आजाद नगर थाना बन्नादेवी क्वार्सी जनपद अलीगढ 2. शहबाज पुत्र अफजाल अहमद नि० ऊपर कोट घास की मन्डी थाना कोतवाली जनपद अलीगढ को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 611/19 धारा 379 भादवि व 499/19 धारा 380 भादवि उपरोक्त पंजीकृत है। अभियुक्तों से पूछताछ कर इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

चोरी की एक अदद मोटर साइकिल CENTURO XT NO DL85BX4644

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहास :-

तौसीफ पुत्र कल्लन खॉं नि० जमालपुर मौलाना आजाद नगर थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

मु०अ०स० 499/19 धारा 380 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

मु०अ०स० 611/19 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

मु०अ०स० 852/17 धारा 379/411 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ

शहबाज पुत्र अफजाल अहमद नि० ऊपर कोट घास की मन्डी थाना कोतवाली जनपद अलीगढ

मु०अ०स० 499/19 धारा 380 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

मु०अ०स० 611/19 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री अभय कुमार थाना बन्नादेवी, अलीगढ
2. उ०नि० श्री हेमन्त कुमार थाना बन्नादेवी, अलीगढ
3. उ०नि० श्री सुमित गोस्वामी थाना बन्नादेवी, अलीगढ
4. का० 285 अविनाश दुबे थाना बन्नादेवी, अलीगढ

5. है0का0 79 लेखराज सिंह थाना बन्नादेवी, अलीगढ

मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अलीगढ़।